



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 401]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 27, 2002/भाद्र 5, 1924

No. 401]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 27, 2002/BHADRA 5, 1924

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2002

सा. का. नि. 605(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समझौता आयोग (आयकर/धनकर) (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम समझौता आयोग (आयकर/धनकर) (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की भर्ती और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2002 है।

(2) ये 22 मई, 2000 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. समझौता आयोग (आयकर/धनकर) (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2000 में, नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“ 6. अभिदायी भविष्य निधि में अभिदाय—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य अभिदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 के अधीन, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार के गैर पेंशन वाले सेवक को लागू हैं, अभिदाय करने के लिए हकदार होंगे। ”

[सं. 22/2002/फा. सं. 22/9/2002—एडो. I सी]

बी. पी. भारद्वाज, उप सचिव

पाद टिप्पणी - दिनांक 22-5-2000 को सं. सा. का. नि. 469(अ) द्वारा मूल नियमावली प्रकाशित की गई थी।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि किसी व्यक्ति पर, इस संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव देने से, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th August, 2002

G.S.R. 605(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Settlement Commission (Income Tax/Wealth Tax) (Recruitment and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 2000, namely :—

1. (1) These rules may be called the Settlement Commission (Income Tax/Wealth Tax) (Recruitment and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 2002.
(2) They shall be deemed to have come into force on the 22nd day of May, 2000.
2. In the Settlement Commission (Income Tax/Wealth Tax) (Recruitment and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 2000, for rule 6, the following rule shall be substituted, namely :—
“6. Contributions to Contributory Provident Fund—The Chairman, Vice-Chairman and Members shall be entitled to make contributions under the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, subject to such conditions as are applicable to non-pensionable servant of the Central Government.”

[No. 22/2002/F. No. 22/9/2002-Ad. IC]

V. P. BHARDWAJ, Dy. Secy.

Foot Note : The Principal Rules were published vide No. G. S. R. 469(E), dated 22-5-2000.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person shall be prejudicially affected by giving the retrospective effect to this amendment.